



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1559]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 17, 2019/वैशाख 27, 1941

No. 1559]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 17, 2019/VAISAKHA 27, 1941

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 मई, 2019

का.आ. 1751(अ).—यतः, मै. इम्बसी ऑफिस पार्क्स प्रा. लि. (पूर्व में मै. डायनेस्टी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड तथा मै. पुणे-इम्बसी प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड), ने महाराष्ट्र राज्य में प्लॉट सं. 3, राजीव गांधी इन्फोटेक पार्क, हिन्जेवाडी, फेज-II, गांव मरुंजी, तालुका मुल्शी, जिला-पुणे में सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक जोन की स्थापना हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28), (जिसे एतदपश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के अंतर्गत प्रस्ताव किया था;

और, यतः केन्द्र सरकार ने, विशेष आर्थिक जोन नियमावली, 2006 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1962(अ) दिनांक 19 नवम्बर, 2007 द्वारा उपर्युक्त विशेष आर्थिक जोन में 17.12 हेक्टेयर के क्षेत्र को अधिसूचित कर दिया था;

और यतः, केन्द्र सरकार ने मै. डायनेस्टी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड से मै. पुणे-इम्बसी प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड के अनुमोदन स्थानांतरण के प्रस्ताव को स्वीकृत किया था। इसके अतिरिक्त मै. इम्बसी ऑफिस पार्क्स प्रा. लि. को 100% हिस्सा स्थानांतरण करने के परिणामस्वरूप, केन्द्र सरकार की स्वीकृति से डेवलपर का नाम मै. पुणे-इम्बसी प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड से परिवर्तन कर मै. इम्बसी ऑफिस पार्क्स प्रा. लि. कर दिया गया था;

और यतः, मै. इम्बसी ऑफिस पार्क्स प्रा. लि. ने अब 2.88 हेक्टेयर एवं 7.298 हेक्टेयर अर्थात् कुल 10.178 हेक्टेयर के क्षेत्र को उक्त विशेष आर्थिक जोन के भाग के रूप में शामिल करने का प्रस्ताव किया है और केन्द्र सरकार ने उक्त प्रस्ताव पर विचार करके उसे दिनांक 14 मई, 2019 को अनुमोदित कर दिया है और अपनी सहमति से अवगत करा दिया है;

अतः अब, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 4 की उप-धारा (1) के दूसरे परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2006 के नियम 8 के अनुसरण में केन्द्र सरकार एतद्वारा **10.178 हेक्टेयर** के अतिरिक्त क्षेत्र को उक्त विशेष आर्थिक जोन के भाग के रूप में शामिल करने के लिए अधिसूचित करती है, जिसके परिमाणतः **कुल क्षेत्रफल 27.298 हेक्टेयर** हो जाएगा, जिसमें निम्नलिखित तालिका में उल्लिखित सर्वेक्षण संख्याएँ और क्षेत्र शामिल हैं, अर्थात्:—

अतिरिक्त क्षेत्र हेतु तालिका

क्र. सं.	गाँव का नाम	सर्वे संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1.	मरुंजी	54/1 भाग	0.99
2.		54/7	0.80

3.		55/12 भाग	0.32
4.		55/18	0.46
5.		55/22	0.04
6.		55/25 भाग	0.45
7.		56 भाग	7.118
कुल			10.178
उपर्युक्त जोड़ के पश्चात् एसईजेड का कुल क्षेत्रफल			27.298

[फा. सं. एफ.2/635/2006—एसईजेड]

बी. बी. स्वेन, अपर सचिव,

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 14th May, 2019

S.O. 1751(E).—Whereas, M/s. Embassy Office Parks Pvt. Ltd. (formerly M/s. Dynasty Developers Private Limited and M/s. Pune-Embassy Project Private Limited), had proposed under section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), (hereinafter referred to as the said Act) to set up a sector specific Special Economic Zone for Information Technology and Information Technology Enabled Services at Plot No. 3, Rajiv Gandhi Infotech Park, Hinjewadi, Phase II, Village Marunji, Taluka Mulshi, District Pune in the State of Maharashtra;

AND, WHEREAS, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the said Act read with rule 8 of the Special Economic Zones Rules 2006, had notified an area of 17.12 hectares at the above Special Economic Zone vide Ministry of Commerce and Industry Notification Number S.O. 1962(E) dated 19th November, 2007;

AND, WHEREAS, the Central Government approved the request for transfer of approval from M/s. Dynasty Developers Private Limited to M/s. Pune-Embassy Projects Private Limited. Further, consequent upon transfer of 100% shares to M/s. Embassy Office Parks Pvt. Ltd., the name of the developer was changed from M/s. Pune-Embassy Projects Private Limited to M/s. Embassy Office Parks Pvt. Ltd. with the approval of the Central Government;

AND, WHEREAS, M/s. Embassy Office Parks Pvt. Ltd. has now proposed to include additional area of 2.88 hectares and 7.298 hectares i.e. total 10.178 hectares area as a part of above Special Economic Zone and the Central Government after considering the said proposal approved and conveyed it on 14th May, 2019;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by second proviso to sub-section (1) of section 4 of the Special Economic Zones Act, 2005 and in pursuance of rule 8 of the Special Economic Zones Rules, 2006, the Central Government hereby **notifies an additional area of 10.178 hectares**, as a part of above Special Economic Zone, thereby making total area of the Special Economic Zone as **27.298 hectares**, comprising the survey numbers and the areas given below in the table, namely:-

TABLE FOR ADDITIONAL AREA

S. N.	Name of Village	Survey No.	Area in hectares
1.	Marunji	54/1 PT	0.99
2.		54/7	0.80
3.		55/12 PT	0.32
4.		55/18	0.46
5.		55/22	0.04
6.		55/25 PT	0.45
7.		56 PT	7.118
Total			10.178
Grand total area of SEZ after above addition			27.298

[F. No. F.2/635/2006-SEZ]

B.B. SWAIN, Addl. Secy.